



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2016/माघ 9, 1937

No. 241]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2016/MAGHA 9, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2016

सं. 34/2015-2020

**विषय:** विदेश व्यापार नीति (2015-20) के पैरा 2.05 (ग) में संशोधन।

**का. आ. 271(अ).**—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति (2015-20) के मौजूदा पैरा 2.05 (ग) को संशोधित करती है और पैरा 2.05 के तहत एक नए प्रावधान भाग (घ) की शुरुआत करती है। मौजूदा पैरा को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

**2.05 आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी)**

(ग) संक्षेप में, आईईसी के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने/अपलोड करने के लिए अपेक्षित विवरण/दस्तावेज (स्कैन की गई प्रतियाँ) निम्नलिखित हैं :

**(i) आईईसी के लिए कंपनी का विवरण :**

- (1) व्यापारिक कंपनी का पैन जिसके नाम पर आयात/निर्यात किया जाएगा (स्वामित्व वाली फर्मों के मामले में एकल आवेदक)।
- (2) आवेदक कंपनी के पते का प्रमाण।
- (3) एलएलपीआईएन/सीआईएन/पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या (जो भी लागू हो)।
- (4) कंपनी के बैंक खाते का विवरण, निर्धारित प्रपत्र एएनएफ-2क, पद्ध में कंपनी का पहले से मुद्रित नाम वाला निरस्त किया हुआ चेक अथवा बैंक का प्रमाण-पत्र।

**(ii) सोसाइटी का स्वामी/साझीदार/निदेशक/सचिव अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कंपनी का प्रबंधक न्यासकर्ता :**

- (1) पैन (सभी श्रेणियों के लिए)
- (2) डीआईएन/डीपीआईएन (कंपनी/एलएलपी फर्म के मामले में)

(iii) हस्ताक्षरकर्ता आवेदक का विवरण :

- (1) पहचान का प्रमाण
- (2) पैन
- (3) डिजिटल फोटोग्राफ

2. संशोधन के बाद पैरा 2.05 (ग) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

**2.05 आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी)**

(ग) आईईसी के आवेदन-पत्र के साथ केवल निम्नलिखित को तत्काल प्रभाव से अपलोड किया जाना अपेक्षित है :

- (1) हस्ताक्षरकर्ता आवेदक का डिजिटल फोटोग्राफ;
- (2) व्यापारिक कंपनी का पैन जिसके नाम पर आयात/निर्यात किया जाएगा (स्वामित्व वाली फर्मों के मामले में एकल आवेदक);
- (3) निर्धारित प्रपत्र एएनएफ-2क (I) में कंपनी का पहले से मुद्रित नाम वाला निरस्त किया हुआ बैंक अथवा बैंक का प्रमाण-पत्र।

3. नई प्रविष्टि, भाग (घ) को पैरा 2.05 के तहत निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

(घ) आवेदकों द्वारा केवल आईईसी/आईईसी में संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 01.04.2016 से डिजिटल हस्ताक्षर (श्रेणी-II अथवा श्रेणी-III) के माध्यम से किया जा सकता है।

4. **इस अधिसूचना का प्रभाव:** इस अधिसूचना की तारीख से आईईसी के लिए आवेदन/प्रस्तुत करते समय डिजिटल फोटोग्राफ के साथ केवल दो दस्तावेजों को अपलोड किया जाना अपेक्षित होगा। इसके अलावा, आवेदकों द्वारा केवल आईईसी/आईईसी में संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 01.04.2016 से डिजिटल हस्ताक्षर (श्रेणी-II अथवा श्रेणी-III) के माध्यम से किया जा सकता है।

[फा. सं. 01/89/180/20/एएम-13/पीसी-2 (ख)]

अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th January, 2016

**No. 34/2015-2020**

**Subject: Amendment in para 2.05 (c) of Foreign Trade Policy (2015-20)**

**S.O. 271(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the existing para 2.05(c) of Foreign Trade Policy (2015-20) and introduces a new provision, part (d) under para 2.05. The existing para reads as under:

**2.05 Importer-Exporter Code (IEC)**

(c) Briefly, following are the requisite details /documents (scanned copies) to be submitted/uploaded along with the application for IEC:

- (i) Details of the entity seeking the IEC:
  - (1) PAN of the business entity in whose name Import/Export would be done (Applicant individual in case of Proprietorship firms).
  - (2) Address Proof of the applicant entity.
  - (3) LLPIN /CIN/ Registration Certification Number (whichever is applicable).
  - (4) Bank account details of the entity. Cancelled cheque bearing entity's pre-printed name or Bank certificate in prescribed format ANF-2A (I).

- (ii) Details of the Proprietor/ Partners/Directors/ Secretary or Chief Executive of the Society/ Managing Trustee of the entity:
  - (1) PAN (for all categories)
  - (2) DIN/DPIN (in case of Company /LLP firm)
- (iii) Details of the signatory applicant:
  - (1) Identity proof
  - (2) PAN
  - (3) Digital photograph

2. After amendment para 2.05 (c) would read as under:

**2.05 Importer-Exporter Code (IEC)**

- (c) Only the following are required to be uploaded along with the application for IEC with immediate effect:
  - (1) Digital photograph of the signatory applicant;
  - (2) Copy of the PAN card of the business entity in whose name Import/Export would be done (Applicant individual in case of Proprietorship firms);
  - (3) Cancelled cheque bearing entity's pre-printed name or Bank certificate in prescribed format ANF-2A(I)

3. The new insertion, part (d) under Para 2.05 would read as under:

- (d) Only online application for IEC /modification in IEC can be made by applicants through digital signature (Class-II or Class-III) with effect from 1.4.2016.

4. **Effect of this Notification:** From the date of this notification only two documents are required to be uploaded /submitted along with the digital photograph while applying for IEC. Further, applications for IEC/ modification in IEC can be made only in online mode by applicants through digital signatures with effect from 1.4.2016.

[F. No. 01/89/180/20/AM-13/PC-2 (B)]

ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade